



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 845 राँची, मंगलवार

4 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5474-- श्री विजय राजेश बरला, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- गिरिडीह) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास सदर, बोकारो की विभागीय अधिसूचना सं०- 4873 दिनांक 2 जुलाई, 2018 द्वारा देवघर श्रावणी मेला, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री कानू राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-प० सिंहभूम) कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज को कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव दिनांक 29 अगस्त, 2018 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5475-- श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गिरिडीह) सम्प्रति निलम्बित की विभागीय अधिसूचना सं०- 4873 दिनांक 2 जुलाई, 2018 द्वारा देवघर श्रावणी मेला, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा को कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से दिनांक 29 अगस्त, 2018 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में अविलम्ब योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपरांत उपायुक्त, देवघर द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।
